

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार  
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

योजना का नाम :- M/S Amalgam Steel & Power Limited, का एकीकृत स्कील प्लॉन्ट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वन क्षेत्र का नाम :- गुमला वन क्षेत्र।

स्थल का नाम :- कामला

थाना/थाना संख्या :- सिसई/45

प्लॉट संख्या - 409, 410, 411, 450, 451, 452

पौधों की कुल संख्या - 12612 पौधा  
दूरी - 3m x 2m (1668 पौधा प्रति हे०)  
मजदूरी दर - 346.01 रु० प्रति मानव दिवस  
रकबा - (18.69 एकड़ या 12612 घ० मी०)  
घेरान की लम्बाई (86 चेन)

| क्र०सं० | कार्य की विवरणी                                                                                                                                                                                   | ईकाई                             | मानक प्राक्कलन |          |         |                   |                         | व्यय      |           |           | अभ्युक्ति                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|---------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                   |                                  | मानव दिवस      | मजदूरी   | सामग्री | प्रति हे० मानक दर | मानव दिवस (Rounded off) | मजदूरी    | सामग्री   | कुल व्यय  |                                                                                                    |
| 1       | विशेष वर्ष 2022-23 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)                                                                                                                                                  | मजदूरी दर प्रति मानव दिवस 346.01 |                |          |         |                   |                         |           |           |           |                                                                                                    |
| 1       | संरक्षण एवं सीमांकन                                                                                                                                                                               | हे०                              | 3.00           | 1038.03  | 0.00    | 1038.03           | 23.00                   | 7958.23   | 0.00      | 7958.23   |                                                                                                    |
| 2       | समानव झाड़ी                                                                                                                                                                                       | हे०                              | 7.00           | 2422.07  | 0.00    | 2422.07           | 53.00                   | 18338.53  | 0.00      | 18338.53  |                                                                                                    |
| 3.2     | घेरान कार्य                                                                                                                                                                                       |                                  |                |          |         |                   |                         |           |           |           |                                                                                                    |
|         | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रैसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुमति पर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आइटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)                                   | चेन                              | 2.00           | 692.02   | 2317.27 | 3009.29           | 344.00                  | 119027.44 | 199285.22 | 318312.66 | मजदूरी-02 मासिक प्रति चेन सामग्री-1963.79 रु० प्रति चेन GST 18% (1963.79 + 353.48 = 2317.27) सहित। |
| 4       | मृदा कार्य (0.3मी० x 0.3मी० x 0.3मी०) 0.027 क्यू० मी० 1668 गीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल गिट सहित)                                                                                     | हे०                              | 36.50          | 12629.37 | 0.00    | 12629.37          | 276.00                  | 95498.76  | 0.00      | 95498.76  |                                                                                                    |
| 5       | अश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)                                                                                                                                         | हे०                              | 16.50          | 5709.17  | 0.00    | 5709.17           | 125.00                  | 43251.25  | 0.00      | 43251.25  |                                                                                                    |
| 6       | सामग्री ( पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)                                                                                                     |                                  | 0.00           | 0.00     | 4707.02 | 4707.02           | 0.00                    | 0.00      | 35632.14  | 35632.14  | सामग्री-3989.00 रु० प्रति हे० GST 18% (3989.00 + 718.02 = 4707.02) सहित।                           |
| 7       | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कंटर ट्रैकिंग-120 कंटर ट्रेंच साईज 5 मी० x 0.30 मी० 0.30 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे स्तर पर 0.15 मी० इट कर 0.30 मी० की चाड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोदनी कर रखा जाना | हे०                              | 55.00          | 19030.55 | 0.00    | 19030.55          | 416.00                  | 143940.16 | 0.00      | 143940.16 |                                                                                                    |
| 8       | सिल्ट रिटेंशन डैम, चेक डैम, रिटेंसिंग एवं ब्रेस्ट वाल, दो वाल, स्पर एवं टैरिफ्ट नियंत्रण कार्य आदि                                                                                                | हे०                              | 25.00          | 8650.25  | 0.00    | 8650.25           | 189.00                  | 65395.89  | 0.00      | 65395.89  |                                                                                                    |
| 9       | गली लैमिंग                                                                                                                                                                                        | हे०                              | 10.00          | 3460.10  | 0.00    | 3460.10           | 76.00                   | 26296.76  | 0.00      | 26296.76  |                                                                                                    |
| 10      | विविध कार्य (खायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)                                                                                                                            |                                  | 0.00           | 0.00     | 150.00  | 150.00            | 0.00                    | 0.00      | 1135.50   | 1135.50   |                                                                                                    |
| 11      | प्रवेश बिन्दु कार्य प्रथम एव द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।                                                                                               |                                  |                |          |         |                   |                         |           |           | 178956.17 |                                                                                                    |
|         | योग :-                                                                                                                                                                                            |                                  | 155.00         | 53631.55 | 7174.29 | 60805.84          | 1500.00                 | 519707.02 | 236052.86 | 934716.05 |                                                                                                    |

(F) वित्तीय वर्ष 2023-24 में समापन कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस ₹ 397.91 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए।

|   |                                                         |      |        |           |         |           |         |           |          |                                         |
|---|---------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| 1 | अंग पौधाला कार्य रानी प्रहरी सहित                       | है०  | 21.50  | 8555.07   | 0.00    | 8555.07   | 163.00  | 64859.33  | 0.00     | 64859.33                                |
| 2 | झारोपण                                                  | है०  | 36.50  | 14523.72  | 0.00    | 14523.72  | 276.00  | 109823.16 | 0.00     | 109823.16                               |
| 3 | दो कोड़नी-निकोनी                                        | है०  | 41.50  | 16513.27  | 0.00    | 16513.27  | 314.00  | 124943.74 | 0.00     | 124943.74                               |
| 4 | ट्रेव के वर्ग पर घेरान हेतु बीज रोपण                    | है०  | 2.00   | 795.82    | 0.00    | 795.82    | 15.00   | 5968.65   | 0.00     | 5968.65                                 |
| 5 | पीपों की सुरक्षा                                        | स्थल | 275.00 | 109425.25 | 0.00    | 109425.25 | 275.00  | 109425.25 | 0.00     | 109425.25                               |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)                  |      | 0.00   | 0.00      | 2790.70 | 2790.70   | 0.00    | 21125.60  | 21125.60 | सामग्री-2365.00 ₹ 425.70=2790.70) सहित। |
| 7 | विशेष कार्य (सायाकन, प्रवात प्रसार, मुदण एवं संकलन आदि) |      | 0.00   | 0.00      | 150.00  | 150.00    | 0.00    | 1135.50   | 1135.50  |                                         |
|   | योग :-                                                  |      | 376.50 | 149813.12 | 2940.70 | 152753.82 | 1043.00 | 415020.13 | 22261.10 | 437281.23                               |

(C) वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्योषण कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस ₹ 457.60 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2023-24 को आधार मानते हुए।

|   |                                        |      |        |           |         |           |        |           |          |                                                                        |
|---|----------------------------------------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | एक कोड़नी-निकोनी                       | है०  | 23.00  | 10524.80  | 0.00    | 10524.80  | 174.00 | 79622.40  | 0.00     | 79622.40                                                               |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) | है०  | 0.00   | 0.00      | 2233.03 | 2233.03   | 0.00   | 16904.04  | 16904.04 | सामग्री-1892.40 ₹ 40 प्रति है० GST 18% (1892.40 +340.63=2233.03) सहित। |
| 3 | पीपों की सुरक्षा                       | स्थल | 365.00 | 167024.00 | 0.00    | 167024.00 | 365.00 | 167024.00 | 0.00     | 167024.00                                                              |
| 4 | घेरान की मरम्मत (86 चेन)               | चेन  | 1.00   | 457.60    | 0.00    | 457.60    | 86.00  | 39353.60  | 0.00     | 39353.60                                                               |
| 5 | मृत पीपों का प्रतिस्थापन               | है०  | 3.00   | 1372.80   | 290.00  | 1662.80   | 23.00  | 10524.80  | 2195.30  | 12720.10                                                               |
|   | योग :-                                 |      | 392.00 | 179379.20 | 2523.03 | 181902.23 | 648.00 | 296524.80 | 19099.34 | 315624.14                                                              |

(D) वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्योषण कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस ₹ 526.24 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2024-25 को आधार मानते हुए।

|   |                                        |      |        |           |         |           |        |           |          |                                                                        |
|---|----------------------------------------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | एक कोड़नी-निकोनी                       | है०  | 23.00  | 12103.52  | 0.00    | 12103.52  | 174.00 | 91565.76  | 0.00     | 91565.76                                                               |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) |      | 0.00   | 0.00      | 1534.00 | 1534.00   | 0.00   | 0.00      | 11612.38 | सामग्री-1300.00 ₹ 40 प्रति है० GST 18% (1300.00 +234.00=1534.00) सहित। |
| 3 | पीपों की सुरक्षा                       | स्थल | 365.00 | 192077.60 | 0.00    | 192077.60 | 365.00 | 192077.60 | 0.00     | 192077.60                                                              |
| 4 | मृत पीपों का प्रतिस्थापन               | है०  | 3.00   | 1578.72   | 290.00  | 1868.72   | 23.00  | 12103.52  | 2195.30  | 14298.82                                                               |
|   | योग :-                                 |      | 391.00 | 205759.84 | 1824.00 | 207583.84 | 562.00 | 295746.88 | 13807.68 | 309554.56                                                              |

(E) वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्योषण कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस ₹ 605.17 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2025-26 को आधार मानते हुए।


|   |                                        |      |        |           |        |           |        |           |         |                                                                    |
|---|----------------------------------------|------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | एक कोड़नी-निकोनी                       | है०  | 23.00  | 13918.91  | 0.00   | 13918.91  | 174.00 | 105299.58 | 0.00    | 105299.58                                                          |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) |      | 0.00   | 0.00      | 590.00 | 590.00    | 0.00   | 0.00      | 4466.30 | सामग्री-500.00 ₹ 40 प्रति है० GST 18% (500.00 +90.00=590.00) सहित। |
| 3 | पीपों की सुरक्षा                       | स्थल | 365.00 | 220887.05 | 0.00   | 220887.05 | 365.00 | 220887.05 | 0.00    | 220887.05                                                          |
| 4 | घेरान की मरम्मत (86 चेन)               | चेन  | 1.00   | 605.17    | 0.00   | 605.17    | 86.00  | 52044.62  | 0.00    | 52044.62                                                           |
|   | योग :-                                 |      | 389.00 | 235411.13 | 590.00 | 236001.13 | 625.00 | 378231.25 | 4466.30 | 382697.55                                                          |

| वित्तीय वर्ष 2027-28 में सम्योषण कार्य (षट्म वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 885.95 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2028-27 को आधार मानते हुए।      |      |         |            |          |            |         |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| पीछी की सुल्ला                                                                                                                                   | स्थल | 365.00  | 254021.75  | 0.00     | 254021.75  | 365.00  | 254021.75  | 0.00      | 254021.75  |
| योग :-                                                                                                                                           |      | 365.00  | 254021.75  | 0.00     | 254021.75  | 365.00  | 254021.75  | 0.00      | 254021.75  |
| (G) वित्तीय वर्ष 2028-29 में सम्योषण कार्य (षट्म वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 800.34 (16% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2027-28 को आधार मानते हुए।  |      |         |            |          |            |         |            |           |            |
| पीछी की सुल्ला                                                                                                                                   | स्थल | 365.00  | 292124.10  | 0.00     | 292124.10  | 365.00  | 292124.10  | 0.00      | 292124.10  |
| योग :-                                                                                                                                           |      | 365.00  | 292124.10  | 0.00     | 292124.10  | 365.00  | 292124.10  | 0.00      | 292124.10  |
| (H) वित्तीय वर्ष 2029-30 में सम्योषण कार्य (षट्म वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 920.39 (16% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2028-29 को आधार मानते हुए।  |      |         |            |          |            |         |            |           |            |
| पीछी की सुल्ला                                                                                                                                   | स्थल | 365.00  | 335942.35  | 0.00     | 335942.35  | 365.00  | 335942.35  | 0.00      | 335942.35  |
| योग :-                                                                                                                                           |      | 365.00  | 335942.35  | 0.00     | 335942.35  | 365.00  | 335942.35  | 0.00      | 335942.35  |
| (I) वित्तीय वर्ष 2030-31 में सम्योषण कार्य (षट्म वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 1058.45 (16% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2029-30 को आधार मानते हुए। |      |         |            |          |            |         |            |           |            |
| पीछी की सुल्ला                                                                                                                                   | स्थल | 365.00  | 386334.25  | 0.00     | 386334.25  | 365.00  | 386334.25  | 0.00      | 386334.25  |
| योग :-                                                                                                                                           |      | 365.00  | 386334.25  | 0.00     | 386334.25  | 365.00  | 386334.25  | 0.00      | 386334.25  |
| (J) वित्तीय वर्ष 2031-32 में सम्योषण कार्य (षट्म वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 1217.22 (16% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2030-31 को आधार मानते हुए। |      |         |            |          |            |         |            |           |            |
| पीछी की सुल्ला                                                                                                                                   | स्थल | 365.00  | 444285.30  | 0.00     | 444285.30  | 365.00  | 444285.30  | 0.00      | 444285.30  |
| योग :-                                                                                                                                           |      | 365.00  | 444285.30  | 0.00     | 444285.30  | 365.00  | 444285.30  | 0.00      | 444285.30  |
| सकल योग :-                                                                                                                                       |      | 3528.50 | 2536702.59 | 15052.02 | 2551754.61 | 6205.00 | 3617937.83 | 295687.28 | 4092581.27 |

नोट:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या - 01/योजबो-10/2014-23 दिनांक 19.06.2018 द्वारा 1886/ हे० वृक्षारोपण हेतु स्वकीकृत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु प्रावधानन तैयार किया गया है।

संरक्षक

| क्रमांक | कार्य विवरण                 | मजदूरी     | सामग्री   | प्रवेश बिन्दु कार्य | योग        |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|
| (A)     | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)   | 519707.02  | 236052.86 | 178956.17           | 934716.05  |
| (B)     | समान कार्य (द्वितीय वर्ष)   | 415020.13  | 22261.10  | 0.00                | 437281.23  |
| (C)     | सम्योषण कार्य (तृतीय वर्ष)  | 296524.80  | 19099.34  | 0.00                | 315624.14  |
| (D)     | सम्योषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) | 295746.88  | 13807.68  | 0.00                | 309554.56  |
| (E)     | सम्योषण कार्य (पंचम वर्ष)   | 378231.25  | 4466.30   | 0.00                | 382697.55  |
| (F)     | सम्योषण कार्य (षट्म वर्ष)   | 254021.75  | 0.00      | 0.00                | 254021.75  |
| (G)     | सम्योषण कार्य (सप्तम वर्ष)  | 292124.10  | 0.00      | 0.00                | 292124.10  |
| (H)     | सम्योषण कार्य (अष्टम वर्ष)  | 335942.35  | 0.00      | 0.00                | 335942.35  |
| (I)     | सम्योषण कार्य (नवम वर्ष)    | 386334.25  | 0.00      | 0.00                | 386334.25  |
| (J)     | सम्योषण कार्य (दशम वर्ष)    | 444285.30  | 0.00      | 0.00                | 444285.30  |
|         | सकल योग :-                  | 3617937.83 | 295687.28 | 178956.17           | 4092581.27 |

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

वन एवं पर्यावरण विभाग, आरखण्ड सरकार  
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

योजना का नाम :- M/S Amalgam Steel & Power Limited, का एकीकृत स्टील प्लांट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वन क्षेत्र का नाम :- गुमला वन क्षेत्र।

स्थल का नाम :- समल

थाना/थाना संख्या :- सिसई/59

प्लॉट संख्या :- 634, 635, 645, 646, 650

पौधों की कुल संख्या :- 8813 पौधा  
दूरी :- 3m x 2m (1986 पौधा प्रति हे०)  
मजदूरी दर :- 346.01 रु० प्रति मानव दिवस  
रकबा :- (13.07 एकड़ या  
घेरान की लम्बाई 64 चैन)

| क्र०सं० | कार्य की विवरणी                                                                                                                                                                                    | ईकाई                             | मानक प्राक्कलन |          |         |                   | व्यय                    |           |           |           | अवशुक्ति                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|---------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                  | मानव दिवस      | मजदूरी   | सामग्री | प्रति हे० मानक दर | मानव दिवस (Rounded off) | मजदूरी    | सामग्री   | कुल व्यय  |                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                | 4              | 5        | 6       | 7                 | 8                       | 9         | 10        | 11        | 12                                                                                                     |
| (A)     | वित्तीय वर्ष 2022-23 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)                                                                                                                                                 | मजदूरी दर प्रति मानव दिवस 346.01 |                |          |         |                   |                         |           |           |           |                                                                                                        |
| 1       | सर्वेक्षण एवं सीमांकन                                                                                                                                                                              | हे०                              | 3.00           | 1038.03  | 0.00    | 1038.03           | 16.00                   | 5536.16   | 0.00      | 5536.16   |                                                                                                        |
| 2       | समान्य झाड़ी                                                                                                                                                                                       | हे०                              | 7.00           | 2422.07  | 0.00    | 2422.07           | 37.00                   | 12802.37  | 0.00      | 12802.37  |                                                                                                        |
| 3.2     | घेरान कार्य                                                                                                                                                                                        |                                  |                |          |         |                   |                         |           |           |           |                                                                                                        |
|         | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेनिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुमति पर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम संख्या 7.143.1 से 9.1 प्रतिशत सर्वेक्षक लाभ घटाकर दर)                                  | चैन                              | 2.00           | 692.02   | 2317.27 | 3009.29           | 376.00                  | 130099.76 | 217823.38 | 347923.14 | मजदूरी-02 मासिक प्रति चैन<br>सामग्री-1963.79 रु० प्रति चैन GST 18%<br>(1963.79 +353.48= 2317.27) सहित। |
| 4       | मृदा कार्य (0.3मी० x 0.3मी० x 0.3मी०) 0.027 क्यू० मी० 1666 पीट प्रति हे० (सर्वेक्षण एवं मृदा प्रोफाइलिंग पिट सहित)                                                                                 | हे०                              | 36.50          | 12629.37 | 0.00    | 12629.37          | 193.00                  | 66779.93  | 0.00      | 66779.93  |                                                                                                        |
| 5       | अशा पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)                                                                                                                                         | हे०                              | 16.50          | 5709.17  | 0.00    | 5709.17           | 87.00                   | 30102.87  | 0.00      | 30102.87  |                                                                                                        |
| 6       | सामग्री (पॉलिथीन शैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)                                                                                                       |                                  | 0.00           | 0.00     | 4707.02 | 4707.02           | 0.00                    | 0.00      | 24900.14  | 24900.14  | सामग्री-3988.00 रु० प्रति हे० GST 18%<br>(3989.00 +718.02=4707.02) सहित।                               |
| 7       | मृदा एवं जल संस्क्षण कार्य कंदूर ड्रेनिंग-120 कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० x 0.30 मी० 0.30 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे स्थल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चाड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइली कर रखा जाना | हे०                              | 55.00          | 19030.55 | 0.00    | 19030.55          | 291.00                  | 100688.91 | 0.00      | 100688.91 |                                                                                                        |
| 8       | सिल्ट रिट्रेशन डैम, चेक डैम, रिट्रेशन एवं ब्रेस्टर वाल, टो वाल, स्पर एवं टेरिफ्ट नियंत्रण कार्य आदि                                                                                                | हे०                              | 25.00          | 8650.25  | 0.00    | 8650.25           | 132.00                  | 45673.32  | 0.00      | 45673.32  |                                                                                                        |
| 9       | गली प्लांगिंग                                                                                                                                                                                      | हे०                              | 10.00          | 3460.10  | 0.00    | 3460.10           | 53.00                   | 18338.53  | 0.00      | 18338.53  |                                                                                                        |
| 10      | विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)                                                                                                                             |                                  | 0.00           | 0.00     | 150.00  | 150.00            | 0.00                    | 0.00      | 793.50    | 793.50    |                                                                                                        |
| 11      | प्रवेश बिन्दु कार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।                                                                                               |                                  |                |          |         |                   |                         |           |           | 148889.40 |                                                                                                        |
|         | योग :-                                                                                                                                                                                             |                                  | 155.00         | 53631.55 | 7174.29 | 60805.84          | 1185.00                 | 410021.85 | 243517.02 | 802428.27 |                                                                                                        |

(B) वित्तीय वर्ष 2023-24 में समापन कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 397.91 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए।

|                                                              | है   | 21.50  | 8555.07   | 0.00    | 8555.07   | 114.00 | 45361.74  | 0.00     | 45361.74  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 असा पीछाशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित                      | है   | 36.50  | 14523.72  | 0.00    | 14523.72  | 193.00 | 76796.63  | 0.00     | 76796.63  |
| 2 कृषारोपण                                                   | है   | 41.50  | 16513.27  | 0.00    | 16513.27  | 220.00 | 87540.20  | 0.00     | 87540.20  |
| 3 दो कोड़नी-निकोनी                                           | है   | 2.00   | 795.82    | 0.00    | 795.82    | 11.00  | 4377.01   | 0.00     | 4377.01   |
| 4 ट्रैच के बम पर घेरान हेतु बीज रोपन                         | स्थल | 275.00 | 109425.25 | 0.00    | 109425.25 | 275.00 | 109425.25 | 0.00     | 109425.25 |
| 5 पीछों की सुरक्षा                                           | स्थल | 0.00   | 0.00      | 2790.70 | 2790.70   | 0.00   | 14762.80  | 0.00     | 14762.80  |
| 6 सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)                     |      | 0.00   | 0.00      | 150.00  | 150.00    | 0.00   | 793.50    | 0.00     | 793.50    |
| 7 विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) |      | 376.50 | 149813.12 | 2940.70 | 152753.82 | 813.00 | 323500.83 | 15556.30 | 339057.13 |
| योग :-                                                       |      |        |           |         |           |        |           |          |           |

सामग्री-23665.00 रु 0 प्रति है 0 GST 18% (23665.00 +475.70=2790.70) सहित।

(C) वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पन्न कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 457.60 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2023-24 को आधार मानते हुए।

|                                          | है   | 23.00  | 10524.80  | 0.00    | 10524.80  | 122.00 | 55827.20  | 0.00     | 55827.20  |
|------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 एक कोड़नी-निकोनी                       | है   | 0.00   | 0.00      | 2233.03 | 2233.03   | 0.00   | 11812.73  | 0.00     | 11812.73  |
| 2 सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) | है   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 167024.00 | 0.00     | 167024.00 |
| 3 पीछों की सुरक्षा                       | स्थल | 365.00 | 167024.00 | 0.00    | 167024.00 | 365.00 | 43014.40  | 0.00     | 43014.40  |
| 4 घेरान की मरम्मत (94 चेन)               | चेन  | 1.00   | 437.60    | 0.00    | 437.60    | 94.00  | 8855.70   | 0.00     | 8855.70   |
| 5 मृत पीछों का प्रतिस्थापन               | है   | 3.00   | 1372.80   | 290.00  | 1662.80   | 16.00  | 273187.20 | 13346.83 | 286534.03 |
| योग :-                                   |      | 392.00 | 179379.20 | 2523.03 | 181902.23 | 597.00 |           |          |           |

सामग्री-1892.40 रु 0 प्रति है 0 GST 18% (1892.40 +340.63=2233.03) सहित।

(D) वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 526.24 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2024-25 को आधार मानते हुए।

| (D) | वितीय वर्ष 2025-26 में सम्पादन काय (चतुर्थ वष) | मजदूर व श्रम | गान-पान | अन्य      | अन्य    | अन्य      | अन्य   | अन्य      | अन्य      |
|-----|------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
|     |                                                | है           | 23.00   | 12103.52  | 0.00    | 12103.52  | 122.00 | 64201.28  | 0.00      |
| 1   | एक कोड़नी-निकोनी                               |              |         |           |         |           |        |           |           |
| 2   | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)         |              | 0.00    | 0.00      | 1534.00 | 1534.00   | 0.00   | 0.00      | 8114.86   |
| 3   | पौधों की सुरक्षा                               | स्थल         | 365.00  | 192077.60 | 0.00    | 192077.60 | 365.00 | 192077.60 |           |
| 4   | मृत पौधों का प्रतिस्थापन                       | है           | 3.00    | 1578.72   | 290.00  | 1868.72   | 16.00  | 8419.84   | 9953.94   |
|     | योग :-                                         |              | 391.00  | 205759.84 | 1824.00 | 207583.84 | 503.00 | 264698.72 | 274347.68 |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              |         |           |         |           |        |           |           |
|     |                                                |              | </      |           |         |           |        |           |           |

सामग्री-1300.00 रु 0 प्रति है 0 GST 18% (1300.00 +234.00=1534.00) सहित।

(E) वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पन्न कार्य (वित्तीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु 605.17 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2025-26 को आधार मानते हुए।

| (E) | वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पादन काय (पंचम वर्ष) | मजदूरों के प्रति | गान्धी स्मृति स्मरण | मजदूरों के प्रति | गान्धी स्मृति स्मरण | मजदूरों के प्रति | गान्धी स्मृति स्मरण | मजदूरों के प्रति | गान्धी स्मृति स्मरण |           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1   | एक कोड़नी-निकोनी                                 | है               | 23.00               | 13918.91         | 0.00                | 13918.91         | 122.00              | 73830.74         | 0.00                | 73830.74  |
| 2   | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)           |                  | 0.00                | 0.00             | 590.00              | 590.00           | 0.00                | 3121.10          | 0.00                | 3121.10   |
| 3   | पीछों की सुरक्षा                                 | स्थल             | 365.00              | 220887.05        | 0.00                | 220887.05        | 365.00              | 220887.05        | 0.00                | 220887.05 |
| 4   | घेरान की मरम्मत (94 चेन)                         | चेन              | 1.00                | 605.17           | 0.00                | 605.17           | 94.00               | 56885.98         | 0.00                | 56885.98  |
|     | योग :-                                           |                  | 389.00              | 235411.13        | 590.00              | 236001.13        | 581.00              | 351603.77        | 3121.10             | 354724.87 |

सामग्री-500.00 रु 0 प्रति है 0 GST 18% (500.00 +90.00=590.00) सहित।

|     |                                                                                                                                               |        |         |            |          |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|
| (F) | वित्तीय वर्ष 2027-28 में सम्योषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु. 365.00 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2028-27 को आधार मानते हुए। | स्थल   | 365.00  | 254021.75  | 0.00     | 254021.75  | 0.00    | 254021.75  |
|     | पौधों की सुरक्षा                                                                                                                              | योग :- | 365.00  | 254021.75  | 0.00     | 254021.75  | 0.00    | 254021.75  |
| (G) | वित्तीय वर्ष 2028-29 में सम्योषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु. 800.34 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2027-28 को आधार मानते हुए। | स्थल   | 365.00  | 292124.10  | 0.00     | 292124.10  | 0.00    | 292124.10  |
|     | पौधों की सुरक्षा                                                                                                                              | योग :- | 365.00  | 292124.10  | 0.00     | 292124.10  | 0.00    | 292124.10  |
| (H) | वित्तीय वर्ष 2029-30 में सम्योषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु. 920.39 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2028-29 को आधार मानते हुए। | स्थल   | 365.00  | 335942.35  | 0.00     | 335942.35  | 0.00    | 335942.35  |
|     | पौधों की सुरक्षा                                                                                                                              | योग :- | 365.00  | 335942.35  | 0.00     | 335942.35  | 0.00    | 335942.35  |
| (I) | वित्तीय वर्ष 2030-31 में सम्योषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु. 1058.45 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2029-30 को आधार मानते हुए।  | स्थल   | 361.00  | 386334.25  | 0.00     | 386334.25  | 0.00    | 386334.25  |
|     | पौधों की सुरक्षा                                                                                                                              | योग :- | 365.00  | 386334.25  | 0.00     | 386334.25  | 0.00    | 386334.25  |
| (J) | वित्तीय वर्ष 2031-32 में सम्योषण कार्य (दसम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु. 1217.22 (15% वृद्धि) वित्तीय वर्ष 2030-31 को आधार मानते हुए।  | स्थल   | 365.00  | 444285.30  | 0.00     | 444285.30  | 0.00    | 444285.30  |
|     | पौधों की सुरक्षा                                                                                                                              | योग :- | 365.00  | 444285.30  | 0.00     | 444285.30  | 0.00    | 444285.30  |
|     | सकल योग :-                                                                                                                                    |        | 3528.50 | 2536702.59 | 15052.02 | 2551754.61 | 5504.00 | 3335720.12 |
|     |                                                                                                                                               |        |         |            |          |            |         | 285190.21  |
|     |                                                                                                                                               |        |         |            |          |            |         | 3769799.73 |

नोट:- प्रदान मुख्य वन संरक्षक, विकास, शारदापुर, रौंकी के कार्यालय आदेश संख्या - 01/योजना-10/2014-23 दिनांक 19.06.2018 द्वारा 1666/हेड वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत हस्तिपूरक वनरोपण हेतु प्राकसन तैयार किया गया है।

सारंश

| क्र.सं. | कार्य विवरण                 | * मजदूरी   | सामग्री   | प्रवेश विन्दु कार्य | योग          |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| (A)     | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)   | 410021.85  | 243517.02 | 148889.40           | 802428.27    |
| (B)     | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)  | 323500.83  | 15556.30  | 0.00                | 339057.13    |
| (C)     | सम्योषण कार्य (तृतीय वर्ष)  | 273187.20  | 13346.83  | 0.00                | 286534.03    |
| (D)     | सम्योषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) | 264698.72  | 9648.96   | 0.00                | 274347.68    |
| (E)     | सम्योषण कार्य (पंचम वर्ष)   | 351603.77  | 3121.10   | 0.00                | 354724.87    |
| (F)     | सम्योषण कार्य (षष्ठम वर्ष)  | 254021.75  | 0.00      | 0.00                | 254021.75    |
| (G)     | सम्योषण कार्य (सप्तम वर्ष)  | 292124.10  | 0.00      | 0.00                | 292124.10    |
| (H)     | सम्योषण कार्य (अष्टम वर्ष)  | 335942.35  | 0.00      | 0.00                | 335942.35    |
| (I)     | सम्योषण कार्य (नवम वर्ष)    | 386334.25  | 0.00      | 0.00                | 386334.25    |
| (J)     | सम्योषण कार्य (दसम वर्ष)    | 444285.30  | 0.00      | 0.00                | 444285.30    |
|         | सकल योग :-                  | 3335720.12 | 285190.21 | 148889.40           | 37,69,799.73 |

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

मैसर्स अमलगम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड का प्लांट विस्तारीकरण हेतु सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला अन्तर्गत 34.74 हे० वनभूमि  
अप्रयोजन प्रस्ताव के विरुद्ध जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित 5.97 हे० गैर-वनभूमि में  
10 (दस) वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रावकलन

योजना का नाम- क्षतिपूरक भू-संरक्षण एवं वनरोपण

जिला-पूर्वी सिंहभूम

प्रखण्ड-गुड़ाबन्दा

स्थल का नाम- बनमाकड़ी

थाना / थाना नं०- घाटशिला - 1019

प्लॉट संख्या- Patch A - 2233P, 2234, 2237P, 2247P

Patch B - 2240, 2245, 2249, 2250, 2251, 2252, 2255

जी०पी०एस कोर्डिनेट- N - 22° 16' 19.048", E - 86° 37' 41.932"

कुल क्षेत्रफल- 5.97 हे०

पीटों - पौधों की सं० प्रति हे० - 1668

कुल पीटों की सं०- 9948

पौधों की बीच की दूरी - 3 X 2 मीटर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस- ₹०- 400.00

प्रजाति का नाम- शीशम, ऑवला, करंज, एकेशिया, चकुन्डी, काजू, नीम, कटहल, सिरिस, अर्जुन, महुआ, काठ सागवान आदि

ट्रेंच की ल०- 85 चैन

| क्रम सं०                           | कार्य की विवरणी                                                                                                                                                                                                                                | मानव दिवस | दर सामग्री | मात्रा   | स्थल विशेष प्राक्कलन की राशि |                   |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |          | कुल मजदूरी (रु०)             | कुल सामग्री (रु०) | कुल प्रस्तावित व्यय(रु०) |
| अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष ) 2023-24 |                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |          |                              |                   |                          |
| 1                                  | सर्वे एवं सीमांकन                                                                                                                                                                                                                              | 3         | 0.00       | 5.97     | 7164.00                      | 0.00              | 7164.00                  |
| 2                                  | झाड़ी सफाई                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |          |                              |                   |                          |
| 2.1                                | झाड़ी सहित सामान्य झाड़ी                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 0.00       | 0.00     | 0.00                         | 0.00              | 0.00                     |
| 2.3                                | घनी झाड़ी                                                                                                                                                                                                                                      | 7         | 0.00       | 0.00     | 0.00                         | 0.00              | 0.00                     |
| 3                                  | घेरान कार्य                                                                                                                                                                                                                                    | 10        | 0.00       | 5.97     | 23880.00                     | 0.00              | 23880.00                 |
| 3.1                                | ट्रेंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)                                                                                                                                     | 25        | 0.00       | 70 chain | 700000.00                    | 0.00              | 700000.00                |
| 3.2                                | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) Add 18% GST (1963.79+1963.79*18%=2317.27)                                       | 2         | 2317.27    | 15 chain | 12000.00                     | 34759.05          | 46759.05                 |
| 3.3                                | पत्थर घेरान - ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० ऊँचाई 1.00 मी०                                                                                                                                                                   | 25        | 0          | 0.00     | 0.00                         | 0.00              | 0.00                     |
| 3.4                                | झाड़ी घेरान                                                                                                                                                                                                                                    | 6         | 25         | 0.00     | 0.00                         | 0.00              | 0.00                     |
| 4                                  | मृदा कार्य (0.3मी० x 0.3मी० x 0.3 मी०) 1668 प्रति/ हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)                                                                                                                                                     | 36.5      | 0          | 5.97     | 87162.00                     | 0.00              | 87162.00                 |
| 5                                  | अंश पौधशाला कार्य रात्रि पहरी सहित 20 % अतिरिक्त के साथ                                                                                                                                                                                        | 16.5      | 0          | 5.97     | 39402.00                     | 0.00              | 39402.00                 |
| 6                                  | सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) Add 18% GST (3989+3989*18%=4707.02)                                                                                                               | 0         | 4707.02    | 5.97     | 0.00                         | 28100.91          | 28100.91                 |
| 7                                  | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंदूर ट्रेंचिंग - 90, कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी रखा जाना | 55        | 0          | 5.97     | 131340.00                    | 0.00              | 131340.00                |
| 8                                  | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाला, टो वाला, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि                                                                                                                                           | 25        | 0          | 5.97     | 59700.00                     | 0.00              | 59700.00                 |
| 9                                  | गली प्लगिंग                                                                                                                                                                                                                                    | 10        | 0          | 5.97     | 23880.00                     | 0.00              | 23880.00                 |
| 10                                 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) Add 18% GST (150+150*18%=177)                                                                                                                                                       | 0         | 177        | 5.97     | 0.00                         | 1056.69           | 1056.69                  |
|                                    | योग                                                                                                                                                                                                                                            | 221       | 7226.29    |          | 1084528.00                   | 63916.65          | 1148444.65               |
| 11                                 | इंट्री प्वाइंट कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी।)                                                                                                                                         |           |            |          | 220822.23                    | 12245.07          | 233067.30                |
|                                    | योग                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |          | 1305350.23                   | 76161.72          | 1381511.95               |
| समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)         |                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |          | 40.00                        | 440.00            |                          |
| 1                                  | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित                                                                                                                                                                                                           | 21.5      |            | 5.97     | 56476.20                     | 0.00              | 56476.20                 |
| 2                                  | वृक्षारोपण                                                                                                                                                                                                                                     | 36.5      |            | 5.97     | 95878.20                     | 0.00              | 95878.20                 |
| 3                                  | दो कोड़नी एवं निकोनी                                                                                                                                                                                                                           | 41.5      |            | 5.97     | 109012.20                    | 0.00              | 109012.20                |
| 4                                  | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन                                                                                                                                                                                                          | 2         |            | 5.97     | 5253.60                      | 0.00              | 5253.60                  |
| 5                                  | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)                                                                                                                                                                                                                   | 275       |            | 5.97     | 121000.00                    | 0.00              | 121000.00                |
|                                    | पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)                                                                                                                                                                                                              | 550       |            |          |                              | 0.00              | 0.00                     |
| 6                                  | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया,जैविक खाद, किटनासक आदि) Add 18% GST (2365+2365*18%=2790.70)                                                                                                                                |           | 2790.7     | 5.97     | 0.00                         | 16660.48          | 16660.48                 |
| 7                                  | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) Add 18% GST (150+150*18%=177)                                                                                                                                                       |           | 177        | 5.97     | 0.00                         | 1056.69           | 1056.69                  |
|                                    | योग                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |          | 387620.20                    | 17717.17          | 405337.37                |

| सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)  |                                                                              |         |          | 44.00      | 484.00    |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|------------|
| 1                           | एक कोड़नी-निकौनी                                                             | 23      | 5.97     | 66458.04   | 0.00      | 66458.04   |
| 2                           | सामग्री (उर्वरक, खाद, रासायन आदि) Add 18% GST<br>(1892.4+1892.4*18%=2233.03) | 2233.03 | 5.97     |            | 13331.19  | 13331.19   |
| 3                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)                                                 | 365     | 5.97     | 176660.00  | 0.00      | 176660.00  |
|                             | पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)                                            | 730     |          |            | 0.00      | 0.00       |
| 4                           | गड़द घेरान की मरम्मत                                                         | 1       | 85 chain | 41140.00   | 0.00      | 41140.00   |
| 5                           | मृत पौधों का प्रतिस्थापन Add 18% GST (290+290*18%=342.20)                    | 3       | 342.2    | 5.97       | 8668.44   | 2042.93    |
|                             | योग                                                                          |         |          | 292926.48  | 15374.12  | 308300.60  |
| सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) |                                                                              |         |          | 48.40      | 532.40    |            |
| 1                           | एक कोड़नी एवं निकौनी                                                         | 23      | 5.97     | 73103.84   | 0.00      | 73103.84   |
| 2                           | सामग्री (उर्वरक, खाद, रासायन आदि) Add 18% GST<br>(1300+1300*18%=1534)        | 1534    | 5.97     | 0.00       | 9157.98   | 9157.98    |
| 3                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)                                                 | 365     | 5.97     | 194326.00  | 0.00      | 194326.00  |
|                             | पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)                                            | 730     |          |            |           | 0.00       |
| 4                           | मृत पौधों का प्रतिस्थापन Add 18% GST (290+290*18%=342.20)                    | 3       | 342.2    | 5.97       | 9535.28   | 2042.93    |
|                             | योग                                                                          |         |          | 276965.13  | 11200.91  | 288166.04  |
| सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)   |                                                                              |         |          | 53.24      | 585.64    |            |
| 1                           | एक कोड़नी-निकौनी                                                             | 23      | 5.97     | 80414.23   | 0.00      | 80414.23   |
| 2                           | सामग्री (उर्वरक, खाद, रासायन आदि) Add 18% GST (500+500*18%=590)              | 590     | 5.97     | 0.00       | 3522.30   | 3522.30    |
| 3                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) 365                                             | 365     | 5.97     | 213758.60  | 0.00      | 213758.60  |
| 4                           | घेरान मरम्मत                                                                 | 1       | 85 Chain | 49779.40   | 0.00      | 49779.40   |
|                             | योग                                                                          |         |          | 343952.23  | 3522.30   | 347474.53  |
| सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)  |                                                                              |         |          | 58.58      | 644.20    |            |
| 1                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) 365                                             | 365     | 5.97     | 235133.00  | 0.00      | 235133.00  |
|                             | योग                                                                          |         |          | 235133.00  | 0.00      | 235133.00  |
| सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)  |                                                                              |         |          | 64.42      | 708.62    |            |
| 1                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) 365                                             | 365     | 5.97     | 258646.30  | 0.00      | 258646.30  |
|                             | योग                                                                          |         |          | 258646.30  | 0.00      | 258646.30  |
| सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)  |                                                                              |         |          | 70.88      | 779.48    |            |
| 1                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) 365                                             | 365     | 5.97     | 284510.20  | 0.00      | 284510.20  |
|                             | योग                                                                          |         |          | 284510.20  | 0.00      | 284510.20  |
| सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)    |                                                                              |         |          | 77.95      | 857.43    |            |
| 1                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) 365                                             | 365     | 5.97     | 312961.95  | 0.00      | 312961.95  |
|                             | योग                                                                          |         |          | 312961.95  | 0.00      | 312961.95  |
| सम्पोषण कार्य (दसम वर्ष)    |                                                                              |         |          | 85.74      | 943.17    |            |
| 1                           | पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक) 365                                             | 365     | 5.97     | 344257.05  | 0.00      | 344257.05  |
|                             | योग                                                                          |         |          | 344257.05  | 0.00      | 344257.05  |
|                             | कुल योग                                                                      |         |          | 4042322.77 | 123976.23 | 4166298.99 |

or 4166299.00

नोट:- उक्त प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 23 दिनांक 19.08.2018 के आलोक एवं वर्तमान प्रचलित मजदूरी दर, एवं अगले दस वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष में 15 प्रतिशत मजदूरी दर में वृद्धि करते हुये तैयार किया गया है। भविष्य में मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त मजदूरी राशि प्रयोज्यता अभिकरण से वसूलनीय होगी।

वन प्रमंडल पदाधिकारी  
जमशेदपुर वन प्रमंडल  
जमशेदपुर

समर्पित,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी  
मुसाबनी प्रादेशिक प्रक्षेत्र